

**[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,
SECTION 3, SUB-SECTION (1)]**

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)**

NOTIFICATION

New Delhi, dated the ^{11th} October, 2012

30.12.36(16). In pursuance of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the proviso, to section 85AC of the Income Tax Act, 1961, the Central Government, on the recommendations of the National Committee for Promotion of Rural and Economic Welfare, hereby notifies the institutions approved by the said National Committee, mentioned in column (2) of the Table below, and sponsors or eligible projects or schemes specified to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table, and also specifies in the column (4) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 85AC for the period or periods, namely:-

TABLE

Serial Number	Name of the Institution	Project or scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 85AC of I.T. Act, 1961
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sahakar Bhainad (a. G. V. K. Bhainad), 6/7, V. K. Bhainad, Tal. Mangalore, District Udupi (Karnataka), Pin - 575 302	State Sahakar Bhainad (Muzum Educational Aids for Rural A. S. Bhainad) (Cost Rs. 50 lakhs)	Rs. 200 lakhs for three financial years commencing with 2012-13 to 2013-14 & 2014-15.
2.	RBIKAS (Rural Engineering Institute) (Engineering Society), No. 3, East Fordy Road Lane, Kamboj Building, V. K. Kamboj, Tal. Mangalore, District Udupi, Pin - 575 302	Colligation and Solution of Urban Water Supply and Sewerage problem (Cost Rs. 50 lakhs)	Rs. 50 lakhs for three financial years commencing with 2012-13 to 2013-14 & 2014-15.
3.	Yashwantrao Chavan Pratishthan, 14, Tharamba Road, V. K. Kamboj, Tal. Mangalore, District Udupi, Pin - 575 302	State Sahakar Bhainad (Muzum Educational Aids for Rural A. S. Bhainad) (Cost Rs. 100 lakhs)	Rs. 100 lakhs for three financial years commencing with 2012-13 to 2013-14 & 2014-15.
4.	State Sahakar Bhainad (Muzum Educational Aids for Rural A. S. Bhainad), 6/7, V. K. Bhainad, Tal. Mangalore, District Udupi, Pin - 575 302	State Sahakar Bhainad (Muzum Educational Aids for Rural A. S. Bhainad) (Cost Rs. 50 lakhs)	Rs. 50 lakhs for three financial years commencing with 2012-13 to 2013-14 & 2014-15.

		(Total Rs 3.79 Crore including a corpus fund of Rs. 2 crore).	
5.	Blind Welfare Society, Sri. Sankar Allodial Bedige, 32-66/720, Vidyanagar Bangalore-560035	Vocational Training Centre. Host Rs. 4.47 Crore.	Rs. 4.47 Crore for three years commencing with 2012-13 to 2013-14 & 2014-15.
6.	Voluntary Association for Blind, Plot No. F-20, A Road, 1st Stage, VSO, Rajahmundry Road - 405, 600, Kannur.	1) Bhavan, Choudak Block, MOHA, NAR, Below 1st Floor, 2) NAR, 1st Stage, VSO, Madhavaram, Madhavaram, 3rd Stage, Madhavaram, 3rd Stage, Madhavaram, 3) NAR, NAR, Training Centre, 4) 1st Stage, VSO, & VSO, Disability Centre, 5) 1st Stage, VSO, & NAR, Disability Training Centre. (Total Rs. 3.5 Crore including a corpus fund of Rs. 3 lakh).	Rs. 5.01 Crore including a corpus fund of Rs. 51 lakh for three financial years commencing with 2012-13 to 2013-14 & 2014-15.
7.	The Spastics Society of Tamil Nadu, Charitable Trust, Chennai - 600 030, Tamil Nadu.	Repayment of financing and financing of Special Education Centre for Special Children & Other Children of SPASTE in Tamil Nadu. (Host Rs. 2.47 Crore).	Rs. 2.47 Crore for three financial years commencing with 2012-13 to 2013-14 & 2014-15.
8.	Blind Kalyan Welfare Centre, At Appawaram, PO, Taluk Japur, Coimbatore - 641 001.	Project proposal seeking financial assistance for Vocational Training and placement centre for the marginal poor people of the Japur district. Host Rs. 3.50 Crore.	Rs. 3.50 Crore for three financial years commencing with 2012-13 to 2013-14 & 2014-15.
9.	Dr. G. Lakshminarayana S. and Nizami, Kongu College of Management, Dr. B. Manna Road, Vidyanagar, Chennai - 600 011.	Land and Building project. (Host Rs. 3.70 Crore).	Rs. 3.70 Crore for three financial years commencing with 2012-13 to 2013-14 & 2014-15.
10.	Koalle Matha Cultural Society, 3/3, Gandhi Lal, Madhavaram, Chennai - 600 026, Kilasa.	Joint Koolle Matha for welfare activities, scheduled every 6 months. (Total Rs. 200.00 Lakh).	Rs. 200.00 Lakh for three financial years commencing with 2012-13 to 2013-14 & 2014-15.

1.	Kantawana Sri Ramasarlaha Asaram Trust, Village Kantawana P.O. Baidaryani U. S. S. Taluk, District: Mandya 27, Pt. Yoganand, West Bengal-743 613.	They are carrying out a project in the Social extension department of the rural extension centre. The Budget for the year 2012-13 is Rs. 15.00 lakh.	Rs. 65.01 lakh for three financial years commencing with 2012-13 to 2014-15, 2013-14 & 2014-15.
12.	SAHAKARI Uche Anandana Home for Orphaned and Needy Students, H.No. 15-2-788/4-5/12, 811, Road, Colony, Asmara (West), P. O. Corner, Mandya, Hastakhand - 743035 Andhra Pradesh	Asst. Secy. Home for Orphaned and Needy Students West Rs. 2.50 crore	Rs. 2.50 crore for three financial years commencing with 2012-13 to 2014-15, 2013-14 & 2014-15.
13.	SHAYAR FOUNDATION, 9-50, Sri Sri Mathura Nagar Andhra Pradesh, P. O. in Machilipatnam-520047	Running of Life Hosp. at Project purpose of Raj. govt. and Life Saving Maintenance etc. West Rs. 575.63 lakh	Rs. 575.63 lakh for three years commencing with 2012-13 to 2014-15, 2013-14 & 2014-15.
14.	Yash Prayodhan, India Company, 112, Kallash Colony, New Delhi - 110027	Establishing and running of centres and enrolment in schools of the children of workers employed in factories and mining sites. West Rs. 25 crore.	Rs. 25 crore for three years commencing with 2012-13 to 2014-15, 2013-14 & 2014-15.
15.	Uchchada Charitable Institution, 165, 2nd Floor, P. O. West, Bellary - 578002	For grant rehabilitation of J. S. Development support West Rs. 3 crore.	Rs. 3 crore for three financial years commencing with 2012-13 to 2014-15, 2013-14 & 2014-15.
16.	Ashtana Anandana Trust, 61, 1st Floor, 5th Floor, 12th Floor, P. O., Mandya-743005.	For Tech. M. Tech. Diploma Vocational Training Centre West Rs. 100.50 lakh.	Rs. 100.50 lakh for three years commencing with 2012-13 to 2014-15, 2013-14 & 2014-15.
17.	Jee. Sri. Lakshmi Federation Members Trust, M. P. O. - K. S. Taluk - Srinigeri, District: Mandya 27, Mandya 27.	For grant for welfare of Global Welfare. West Rs. 4.45 crore.	Rs. 4.45 crore for three financial years commencing with 2012-13 to 2014-15, 2013-14 & 2014-15.
18.	Head Sema Matangli, G, 1122 Gunglas, P. O. P. O. Rao,	For grant for Village Development project with national funds and income	Rs. 1.95 lakh for three financial years commencing with 2012-13

	Swarna Shiksha Bhadrak - 6. Bhadrak Pradhan.	Initiating program for SC/ST/ PwD and Women.	Rs. 90 Lakhs, 2013-14 & 2014-15.
18	Digvijay Uda Sahasrabahu, Opp. Civil Hospital, Gate No 5, Akroha, Ahmedabad - 380 018, Gujarat.	Vidya - 1. Uda Swaharath. Akroha.	Rs. 5.17 crore including a corpus fund of Rs. 2 crore.
20	Zaidi Shiksha Trust P.O. No. 57, Road, Mandehar, Barmer, District Jaisalmer, Rajsthan	Health Awareness (RCH and Cancer Awareness) Camp and Workshop, Taru, Barmer, Rajsthan.	Rs. 4.67 Crore for three years commencing with 2012-13 to 2014-15.
21	Jai Lalji Lalji Lalji Munji, Anilwan Nagar, Sec-3, A.P. Garden, 425/15, Dadar, Mumbai, Maharashtra.	Expansion of Mani Charitable Hospital and Research Centre.	Rs. 2.61 Crore for three years commencing with 2012-13 to 2014-15.
22	Shri. Sri. Rajendra - P Haveli Sahasrabahu Group, Gandhi Bhawan 260, Bafra - 4, Dist, Pune - 411 002, Maharashtra.	Abolishing Sahasrabahu Project. Integrated Development of people living in slum areas in Karaga expansion of social welfare.	Rs. 25 Crore for three years commencing with 2012-13 to 2014-15.
23	Kamraj Sava Shiksha Samsthan, 8017, V. K. Sahasrabahu, Nagar, Akroha, Sec-3, Uda - 380 110, Rajsthan.	Expansion of corpus fund of Rs. 2.10 crore.	Rs. 3.47 Crore for three years commencing with 2012-13 to 2014-15.
24	Saral Kanya Shiksha Rajaj Gana - 84, 2nd - 502 32, Rajkot.	Shri. Saral Kanya Shiksha Medical College.	Rs. 49.37 Crore for three years commencing with 2012-13 to 2014-15.
25	Shri. Saral Kanya Shiksha Rajaj Gana - 84, 2nd - 502 32, Rajkot.	Establishment of Shri Saral Kanya Institute of Vocational and Technical Education. Expenditure of Rs. 1.50 crore and corpus fund.	Rs. 5.42 Crore for three years commencing with 2012-13 to 2014-15.
26	Shri. Saral Kanya Shiksha Rajaj Gana - 84, 2nd - 502 32, Rajkot.	Expansion of corpus fund of Rs. 2.10 crore.	Rs. 3.47 Crore for three years commencing with 2012-13 to 2014-15.

	Kewal Lalal Patil - 19, Shri Gandhi Khandra, Gokulnagar, Mangalore - 575 028	Refugee & Training Centre for Mobility Challenged Khandra, Mangalore	Annual comprehending with 2012-13 ie 2012-13, 2013-14 & 2014-15.
27.	Dr. S. S. Srinivasan, K. S. Srinivasan, Mysore, Bengaluru, Dist - 174 Devarahalli, K. S. Srinivasan, Mysore, Bengaluru	Krishna Mission - 174 Devarahalli Mysore (Rural) District Mysore (Rural) District Mysore (Rural) District	Rs. 200.00 lakh including a corpus fund of Rs. 50 lakh for three financial years commencing with 2012-13 ie 2012-13, 2013-14 & 2014-15.
28.	Dr. S. S. Srinivasan, K. S. Srinivasan, Mysore, Bengaluru, Dist - 174 Devarahalli, K. S. Srinivasan, Mysore, Bengaluru	Dr. S. S. Srinivasan, K. S. Srinivasan, Mysore, Bengaluru, Dist - 174 Devarahalli, K. S. Srinivasan, Mysore, Bengaluru	Rs. 300 lakh for three financial years commencing with 2012-13 ie 2012-13, 2013-14 & 2014-15.
29.	Dr. S. S. Srinivasan, K. S. Srinivasan, Mysore, Bengaluru, Dist - 174 Devarahalli, K. S. Srinivasan, Mysore, Bengaluru	i. Integral Community Development & Support Program (Khandra & Riholi), ii. Community Development Program (Khandra), iii. Remedial Education, Rural for under privileged children & women empowerment (Khandra, Riholi, Riholi, Riholi & Riholi), iv. Community Development Program (Khandra, Riholi, Riholi, Riholi & Riholi), v. Women Empowerment and Skill Training Program (Khandra & Riholi), vi. Community Development and Cooperation Centre (Khandra), vii. Open School	Rs. 1.00 crore for three financial years commencing with 2012-13 ie 2012-13, 2013-14 & 2014-15.
30.	Dr. S. S. Srinivasan, K. S. Srinivasan, Mysore, Bengaluru, Dist - 174 Devarahalli, K. S. Srinivasan, Mysore, Bengaluru	Expansion of existing Building, Vocational Training Centre and Training Centre.	Rs. 7.00 crore for three financial years commencing with 2012-13 ie 2012-13, 2013-14 & 2014-15.
31.	Dr. S. S. Srinivasan, K. S. Srinivasan, Mysore, Bengaluru, Dist - 174 Devarahalli, K. S. Srinivasan, Mysore, Bengaluru	Expansion of existing Building, Vocational Training Centre and Training Centre.	Rs. 7.00 crore for three financial years commencing with 2012-13 ie 2012-13, 2013-14 & 2014-15.

	Location	Financial year commencing with
11. Ajjur Sakhyale Colony - wing, Kuvem district Sakara, Kuvem taluk	Health (Post No. 525 Govt.)	2012-13, 2013-14 & 2014-15
12. Ajjur Gram, Section 7, Elipadu P.O., Venkateswara, Bagalur, Anantapur.	Creation of Employment opportunities for Differently abled persons below poverty line. (Post No. 519 Govt.)	Rs. 2.8 Crore for three financial years commencing with 2012-13 i.e. 2012-13, 2013-14 & 2014-15
13. Ajjur Block Panch, Vatala/Chinnu Madala, Vinayakapuram, Ajjur Gram Panch, Vindavani - 516022 (U.P.)	Water supply Project, (Post No. 503 Govt.)	Rs. 500 Crore for three financial years commencing with 2012-13 i.e. 2012-13, 2013-14 & 2014-15
14. Sri Sankar Sankar Trust, Jayalakshmi Estate, No. 29 (Old No. 9), Heeduru Road, Chennai - 600 006, Tamil Nadu.	Rural Development Project in 4 villages in Pate, Khammam.	Rs. 150 Lakh for three financial years commencing with 2012-13 i.e. 2012-13, 2013-14 & 2014-15.

11. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 2012-13, 2013-14 & 2014-15 in respect of project or scheme mentioned at serial numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 & 34 of the said table.

[No. A 7 / 2012 / S.No. V 27015 / E - 2012-80 (N. C. 2012)]


 Director (National Committee)

1.	<p>श्री मास्टर इयंगर प्रभाकर आनंद जन्मदिनांक 14/09/1932 पता: पिनकोड 508 122, गिरिजा नगर, नरसिपल्ली, तेलंगणा राज्य 507013E</p>	<p>उच्च और माध्यम स्तर का अनुसंधान/परीक्षण/सिस्टम के लिए अनुसंधान/परीक्षण और सिस्टम विकास के योग्य के लिए उपायकारक निष्कर्षों को लिए निर्दिष्ट साक्ष्य 12 करोड़ रुपये की लागत निर्देशी संशोधन से 3.75 करोड़ रुपये)</p>	<p>वर्ष 2012-13 से निर्देशी संशोधन कार्य करने से होने मिलेगी राशि के लिए वर्षवार 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 हेतु 2 करोड़ रुपये की लागत निर्देशी संशोधन 3.75 करोड़ रुपये</p>
2.	<p>श्री श्री महिला उच्च कोच, मास्टर आनंद देवी देवी, पताकोड 6228, तिरुवनमिसरी, तमिल नाडु 411002</p>	<p>व्यवसायिक प्रबंधन के लिए (आनंद 1.77 करोड़ रुपये)</p>	<p>वर्ष 2012-13 से निर्देशी संशोधन कार्य करने से होने मिलेगी राशि के लिए वर्षवार 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 हेतु 2 करोड़ रुपये</p>
3.	<p>नारायण स्वामी आनंद प्रसाद आनंद, पताकोड 508 122, गिरिजा नगर, नरसिपल्ली, तेलंगणा राज्य 507013E</p>	<p>1) एम.एस. अंबेडकर इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना 2) एम.एस. अंबेडकर इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी प्रोसेसिंग केंद्र का श्रमिक भवन बनाने का 3) एम.एस. अंबेडकर इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी प्रोसेसिंग केंद्र में डी.आर.आइ.ए.ए. की स्थापना 4) डॉ. आनंद देवी कोच के माध्यम से डि.ए.के.के.के.के.के.के. 5) एम.एस. अंबेडकर इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी प्रोसेसिंग केंद्र का विकास 6) एम.एस. अंबेडकर इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी प्रोसेसिंग केंद्र का विकास 7) एम.एस. अंबेडकर इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी प्रोसेसिंग केंद्र का विकास 8) एम.एस. अंबेडकर इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी प्रोसेसिंग केंद्र का विकास 9) एम.एस. अंबेडकर इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी प्रोसेसिंग केंद्र का विकास 10) एम.एस. अंबेडकर इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी प्रोसेसिंग केंद्र का विकास 11) एम.एस. अंबेडकर इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी प्रोसेसिंग केंद्र का विकास निर्देशी संशोधन से 5.00 करोड़ रुपये)</p>	<p>वर्ष 2012-13 से निर्देशी संशोधन कार्य करने से होने मिलेगी राशि के लिए वर्षवार 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 हेतु 5 करोड़ रुपये</p>
4.	<p>श्री लाडिका सोनवणी आनंद पताकोड, पिनकोड 508 122, गिरिजा नगर, नरसिपल्ली, तेलंगणा राज्य 507013E</p>	<p>श्री लाडिका सोनवणी आनंद पताकोड, पिनकोड 508 122, गिरिजा नगर, नरसिपल्ली, तेलंगणा राज्य 507013E</p>	<p>वर्ष 2012-13 से निर्देशी संशोधन कार्य करने से होने मिलेगी राशि के लिए वर्षवार 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 हेतु 2 करोड़ रुपये</p>

8	विश्व व्यापक फाउंडेशन, केन्द्र , इन्टरनेट, 1100000, 2 विभाग लाहौर, 355500।	अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए छात्रों के लिए अवधिगत शिक्षण प्रकल्प की मदद के लिए कर्मियों द्वितीय सहायक के रूप में लिए परिचालन प्रस्ताव (आगत 2000 करोड़ रुपये की)	वर्ष 2012-13 से 2015 तक गठित वर्षों के बीच वित्तीय वर्षों के लिए वर्षों 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 हेतु 2000 करोड़ रुपय की कार्यवाही करें
9	विश्व विज्ञान ट्रस्ट, आनंद विश्वविद्यालय, आनंद 380015 गैंगवारिया, डा. डी. भास्कर रेड, एच. 2501 गुरुवाड़ी 40011	शुद्धि एवं स्वच्छता अभियान (आगत 30000 करोड़ रुपये)	वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले वर्षों के बीच वित्तीय वर्षों के लिए वर्षों 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 हेतु 3000 करोड़ रुपये
10	आवासीय विकास कर्मचारी संघ, 106, गुडविला रोड, नयापल्ल, बंगलूरु, 560076, कर्णाट	वासोपयोग के कर्मचारियों को जिस अनुदान प्राप्त करने के लिये के लिए 2000 करोड़ रुपये (आगत 20019 करोड़ रुपये)	वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले वर्षों के बीच वित्तीय वर्षों के लिए वर्षों 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 हेतु 200.19 करोड़ रुपये
11	राजस्थानीय धातु उद्योग, संयुक्त ट्रस्ट, 106, गुडविला रोड, नयापल्ल, बंगलूरु, कर्णाट धारा नगर, गुडविला रोड, 28 नयापल्ल, बंगलूरु 560076- 000010	अभियान प्रकल्प, दक्षिण क्षेत्र प्रकल्प, बंगलूरु उद्योग के कर्मचारियों के लिये नए द्वितीय वित्तिय सहायक एवं अन्य नए उद्योगिक कार्यक्रम आरंभ (आगत 35.51 लाख रुपये)	वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले वर्षों के बीच वित्तीय वर्षों के लिए वर्षों 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 हेतु 35.51 लाख रुपये
12	अभियान : की आवासीय क्षेत्र को उद्योग, 106 गुडविला नयापल्ल, 10 16-2- 10000000, एक से एक सेवा प्रकल्प, आवासीय क्षेत्रों में को उद्योग, 106 गुडविला रोड, नयापल्ल, बंगलूरु 560076- 000010, आनंद प्रदेश	अभियान सेवा प्रकल्प, प्रकल्प को नयापल्ल नगर (आगत 2000 करोड़ रुपये)	वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले वर्षों के बीच वित्तीय वर्षों के लिए वर्षों 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 हेतु 2000 करोड़ रुपये
13	विश्व व्यापक फाउंडेशन, केन्द्र , इन्टरनेट, 1100000, 2 विभाग लाहौर, 355500।	अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए छात्रों के लिए अवधिगत शिक्षण प्रकल्प की मदद के लिए कर्मियों द्वितीय सहायक के रूप में लिए परिचालन प्रस्ताव (आगत 2000 करोड़ रुपये की)	वर्ष 2012-13 से 2015 तक गठित वर्षों के बीच वित्तीय वर्षों के लिए वर्षों 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 हेतु 2000 करोड़ रुपय की कार्यवाही करें

<p>14</p> <p>एन सी ई आर (एन सी ई) लिमिटेड प्लॉट नं. 12, फेडरल कारपोरेशन नए दिल्ली-110018</p>	<p>12.00 करोड़ रुपये</p> <p>कारखाने में काम करने वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के प्रयत्नों के लिए केन सी इयानस और संघर्ष तथा सिद्ध ए. ई. नानावत फार्मा (लागत 20.50 करोड़ रुपये)</p>	<p>25.4 2015 से 3770.60 लाख रुपये</p> <p>वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले वर्षों में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 के 2000 करोड़ रुपये</p>
<p>15</p> <p>संश्लेषण संशोधन निदेशक एन.एस.एस.ए. संघर्ष विभाग, दिल्ली-110009</p>	<p>विशेष संशोधन के अंतर्गत एंटीबोटिक संशोधन और अन्य गतिशील (लागत 2 करोड़ रुपये)</p>	<p>वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले वर्षों में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 के 2 करोड़ रुपये</p>
<p>16</p> <p>अरिना जूवैशन इस्टीमेट नारा गांधी नगर, दिल्ली-110006</p>	<p>संशोधन प्रयोग कारखाने एंटीबोटिक संशोधन के अंतर्गत (लागत 133.88 करोड़ रुपये)</p>	<p>वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले वर्षों में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 के 133.88 करोड़ रुपये</p>
<p>17</p> <p>एन सी ई आर (एन सी ई) लिमिटेड प्लॉट नं. 12, फेडरल कारपोरेशन नए दिल्ली-110018</p>	<p>एंटीबोटिक संशोधन के अंतर्गत (लागत 2.45 करोड़ रुपये)</p>	<p>वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले वर्षों में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 के 9.28 करोड़ रुपये</p>
<p>18</p> <p>एन सी ई आर (एन सी ई) लिमिटेड प्लॉट नं. 12, फेडरल कारपोरेशन नए दिल्ली-110018</p>	<p>एंटीबोटिक संशोधन के अंतर्गत (लागत 1.92 करोड़ रुपये)</p>	<p>वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले वर्षों में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 के 119 करोड़ रुपये</p>
<p>19</p> <p>एन सी ई आर (एन सी ई) लिमिटेड प्लॉट नं. 12, फेडरल कारपोरेशन नए दिल्ली-110018</p>	<p>एंटीबोटिक संशोधन के अंतर्गत (लागत 2.45 करोड़ रुपये)</p>	<p>वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले वर्षों में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2012- 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 के 2 करोड़ रुपये के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये</p>

26.	श्री गणेश सेवा इकाई का एच.डी.एम.एच.एच.एच.डी.डी. एच.डी.एम.एच.एच.एच.डी.डी. जयपुर - 302002	1. शिक्षण - मानसिक रूप से विकलांगों को 10% आवासीय शिक्षण पर और 20% तक (ता. 5 नवीं वर्ष)	वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले वर्ष में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014- 2015 तक 8 करोड़ रुपये
27.	जयपुर ज.प.के.एच.एच.डी.डी. जयपुर, जयपुर, जयपुर 24 अक्षयवा, जयपुर-302002 200175 जयपुर जयपुर	जयपुर ज.प.के.एच.डी.डी. और जयपुर जयपुर और जयपुर जयपुर जयपुर (50 करोड़ रुपये के अर्थात् जयपुर जयपुर 2012-13 तक तक)	वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले वर्ष में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014- 2015 तक 50 करोड़ रुपये के अर्थात् जयपुर 2012-13 तक तक
28.	डॉ. श्रीमती जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर	जयपुर जयपुर जयपुर और जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर	वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले वर्ष में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014- 2015 तक 100 करोड़ रुपये के अर्थात् जयपुर
29.	जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर	जयपुर जयपुर	वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले वर्ष में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014- 2015 तक 100 करोड़ रुपये

		<p>अ. अनुसूचित क्षेत्रों में जनसूचक के अंतर्गत स. सामाजिक</p> <p>वित्त 100 करोड़</p>	
30.	<p>मुजफ्फरगंज जिला स्तरीय 1000 सरदारों की योजना अनुसूचित क्षेत्रों</p>	<p>संबंधित जिले के विभिन्न व्यवसायिक परियोजनाओं और परियोजनाओं (लगभग 1000 करोड़ रुपये)</p>	<p>इस वर्ष 2012-13 में अंश होने वाले वर्षों में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अंश 2012-2013 2013-2014 एवं 2014- 2015 हेतु 7.60 करोड़ रुपये</p>
31.	<p>सहज सामाजिक सेवाओं प्रदान करने की योजना जिला स्तर पर अंश</p>	<p>संबंधित सुविधाओं का अंश (लगभग 1000 करोड़ रुपये)</p>	<p>इस वर्ष 2012-13 में अंश होने वाले वर्षों में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अंश 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014- 2015 हेतु 3.35 करोड़ रुपये</p>
32.	<p>सहज सेवाओं की योजना अंश, सामाजिक अंश</p>	<p>संबंधित सेवाओं की अंश अंश और अंश अंशों के लिए योजनाओं के अंश अंश (लगभग 2.10 करोड़ रुपये)</p>	<p>इस वर्ष 2012-13 में अंश होने वाले वर्षों में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अंश 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014- 2015 हेतु 2.10 करोड़ रुपये</p>
33.	<p>सहज सेवाओं की योजना अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश</p>	<p>संबंधित सेवाओं की अंश (लगभग 5.30 करोड़ रुपये)</p>	<p>इस वर्ष 2012-13 में अंश होने वाले वर्षों में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अंश 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014- 2015 हेतु 5.30 करोड़ रुपये</p>
34.	<p>सहज सेवाओं की योजना अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश अंश</p>	<p>संबंधित सेवाओं की अंश अंश अंश अंश अंश (लगभग 1000 करोड़ रुपये)</p>	<p>इस वर्ष 2012-13 में अंश होने वाले वर्षों में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अंश 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014- 2015 हेतु 10.00 करोड़ रुपये</p>

2018-2019 का 2017-

2018 का 150 नया

रुपये

11. 18 अक्टूबर दिनांक 2017, 2018 तथा 2019 के काल में तल धान की खेती के लिए और अन्य खेती के क्र. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34 के अंतर्गत नए खेती के लिए खेती के लिए 1800 रु.।

12. 18 अक्टूबर दिनांक 2017, 2018 तथा 2019 के काल में तल धान की खेती के लिए और अन्य खेती के क्र. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34 के अंतर्गत नए खेती के लिए खेती के लिए 1800 रु.।



अनिल कुमार मेधा
जिल्हाकाराधीन समिती

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART-II,

SECTION 3, SUB-SECTION (ii),
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF FINANCE,
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 10th October 2012

Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2033 (E) dated 07 August, 2009, clause (ii) under sub-section (ii) read with clause (b) of the Explanation to section 35A of the Income-tax Act, 1961 (Act of 1961), the Central Government has notified a serial number 2, 3A proposed for construction and extension of the rural school, the rural hospital & community development work by Krishnamurti Education India, Vasant Vihar, Bear No. 24-125 (old No. 91-53), Chennarayana Road, Rajiv Gandhi Nagar, Chennai - 600 028, Tamilnadu, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

and whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under clause (b) of the said section 35A of the Income-tax Act, 1961 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (ii) read with clause (b) of the Explanation to section 35A of the Income-tax Act, 1961 (Act of 1961), hereby notifies the scheme or project 2A proposed for development and extension of the rural school, the rural hospital & community development work which is being carried out by Krishnamurti Education India, Vasant Vihar, Bear No. 24-125 (old No. 91-53), Chennarayana Road, Rajiv Gandhi Nagar, Chennai - 600 028, Tamilnadu, without any change in the number and of Rs. 68.12 lakh as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2012-13 to 2014-15 (2012-13, 2013-14 & 2014-15).

(No. S.O. 2012 (E) No. 9, 2012) S.O. 2012 (E) No. 9, 2012


(Anil Kumar Verma)
Director (National Committee)

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 9th October, 2011

S.O. 2387(B) Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number 631/62-100, dated 28th March, 2008, issued under a section (i) read with clause (y) of the Income-tax Act, 1961 of the Income-tax Act, 1961 (19 of 1961), the Central Government had notified in paragraph 2, "Rajiv Gandhi Ashram, subject to SCSO sustains" by O. holder and Rajiv Gandhi Ashram, Women Welfare Centre, Village, Chahala, PO Kharla, Taluk, District, Khammam, Madhya Pradesh, as a 100% exempted area, subject to scheme for a period of three years commencing with financial year 2008-09;

And whereas the said period of three years is hereby extended to year three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the project on which is being executed properly under either the recommendations under sub-section (1) of section 104 of the Income-tax Act, 1961 for extending the said project scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by a section (i) read with clause (y) of the Income-tax Act, 1961 of the Income-tax Act, 1961 (19 of 1961), hereby notifies the scheme of subject "Rajiv Gandhi Ashram School for 3001 students" which is being carried on by Rajiv Gandhi Ashram, Women Welfare Centre, Village, Chahala, PO Kharla, Taluk, District, Khammam, Madhya Pradesh, as a 100% exempted area, subject to scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2012-13 to 2014-15 (2013-14 & 2014-15).

No. G.O. 2012-FIN(X)-290150-30.2 SO/NAT/100/11


(Ajay Kumar Mehra)
Director (Medical Committee)

NOTICE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October 2012

NO. 2548 (F) - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2545 (F) dated 27th October 2009, issued under sub-section (ii) read with clause (g) of the Explanation to section 35AD of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government has notified of serial number 16, Expansion of Hospital called Sri Sai Institute of Medical Sciences Hospital and Research Centre by DCAI, JE Education Centre (Development of Communication, Arts & Culture, Science, Biotechnology and Domestic Centre), B. Jeebhing Nagar Area, Bishnupur District, Manipur - 795125, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with the financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to spend 50 per cent of the

cost where the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, may be further recommended under clause (g) of rule 1A of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and increase the project cost from Rs. 24.52 crore to Rs. 44.47 crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (ii) read with clause (g) of the Explanation to section 35AD of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the said project or scheme of Hospital called Sri Sai Institute of Medical Sciences Hospital and Research Centre which is being carried out by DCAI, JE Education Centre (Development of Communication, Arts & Culture, Science, Biotechnology and Domestic Centre), B. Jeebhing Nagar Area, Bishnupur District, Manipur - 795125, as an eligible project or scheme for a period of three years commencing with the financial year 2012-13, 2013-14, 2014-15 & 2015-16.

301. Under the said notification number S.O. 2545 (F) dated 27th October, 2009, in the following order namely:

In the said notification, in the Table against serial number 13, in column (d), relating to maximum amount of credit to be allowed as deduction under section 35AD of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word "Rs. 24.52 crore" in the last, figure and word "Rs. 44.47 crore" shall have effect.

(No. 75-2012 - New 2701532012-30/NAT/0234)


Ajay Kumar Nene
Director (National Committee)

NOTICE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART I,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 21st October, 2013

N.O. 2209 (3) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1259 (F) dated 18th May, 2005, clause (c) of sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 85AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Providing Shelter and Mobile Health Services to 42L and Tribal Families" of Sahara Health & Education Society, 42 Defence Park, Madhyama, Kolkata - 700 011, as a eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2005-06.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation to extend the benefit of clause (c) of sub-section (1) of the Income Tax Act, 1961 to the said project or scheme for a further period of three years.

Now, the Ministry of Finance Government, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of the Explanation to section 85AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Providing Shelter and Mobile Health Services to 42L and Tribal Families" which is being executed by Sahara Health & Education Society, 42 Defence Park, Madhyama, Kolkata - 700 011, without any change in the approved cost of Rs. 11.75 crore, as a eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2012-13, i.e. 2012-13, 2013-14 & 2014-15.

Ms. F. 120.27 (No. V 256.5920 2-50) (N.A. 1094)


Ajay Kumar Mehta,
Director (National Committee)

GOVERNMENT OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 9th October, 2012


S.O. 2405 (i) - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1230 (i) dated 15th May 2009, certain matters specified therein with clause (b) of the Explanation to section 35A(2) of the Income-tax Act, 1961 (19 of 1961), the Central Government has notified as serial number 4, "Project 'DURBANIKARAN' Essential facilities for formerly bonded and landless labourers in Naxalite area of Gadchiroli and Nagpur, Maharashtra" of Gujarat Society, Hadas Nagar, Kemptur, Warananagar-441002, Maharashtra, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10;

And whereas the said project or scheme is being executed beyond three years;

And whereas the National Commission for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed in good faith and their activities conform to the sub-rule (3) of rule 134 of the Income-tax Act, 1961 for extending the term of operation thereof for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) (b) with clause (b) of the Explanation to section 35A(2) of the Income-tax Act, 1961 (19 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Project 'DURBANIKARAN' Essential facilities for formerly bonded and landless labourers in Naxalite area of Gadchiroli and Nagpur, Maharashtra" which is being carried out by Gujarat Society, Hadas Nagar, Kemptur, Warananagar-441002, Maharashtra, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2012-13 to 2014-15, 2013-14 & 2014-15.

(No. F.2/2012-13/1150/2012-SO/NAI/0001)


Ajay Kumar Verma
Deputy National Commissioner

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 7th October, 2012

S.O. 2431 (2) Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2531 (1) dated 1st October, 2009, issued under sub-section (1) and with clause (b) of the Explanation to section 35AD of the Income-tax Act, 1961 (44 of 1961), the Central Government has notified, at serial number 5, "Expansion of existing Udaan Scheme for welfare of girls" by A.P. Foundation, 338, Tripathi Nagar, St. No. 1, 31st Cross Road, Anand Park, New Delhi - 110067, as an eligible project or scheme for a limited period of three years, viz. financial year 2009-10;

And whereas the said project or scheme is only to extend to year three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, may be further extended under sub-rule (5) of rule 118I of the Income-tax Act, 1961 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and with clause (b) of the Explanation to section 35AD of the Income-tax Act, 1961 (44 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Expansion of existing Udaan Scheme for welfare of girls" which is being carried on by A.P. Foundation, 338, Tripathi Nagar, St. No. 1, 31st Cross Road, Anand Park, New Delhi - 110067, without any change in the approved cost of Rs. 62.00 lakh as an eligible project or scheme for a limited period of three years commencing with the financial year 2012-13 to 2013-14 & 2014-15.

[No. 73-10/2012-SO.2012-80(NAY-1002)]


(Ajay Kumar Verma)
Director (National Committee)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 9th October, 2012

S.O. 23082 (F) - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number SO 2035 (E) dated 29 August, 2010, read with clause (f) of the Explanation to section 54AC of the Income Tax Act, 1961 (3 of 1961), the Central Government had notified a social number (J) "Mansarovar Trust for Childhood Blindness" by Manjivasa Lekshayee Mahapatra, Dr. Rajendra Chandra, A/S Nagar, Nagpur, Maharashtra as an eligible project or scheme for a term of three years beginning with financial year 2009-10;

And whereas the said project or scheme is being continued beyond three years;

and whereas the Medical Committee for Beneficiaries of Social and Charitable Welfare, being appointed for the said project or scheme is being, exercised properly, since a further report (under sub-rule (b) of rule 113) of the Income Tax Rules, 1962, in exercise of the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (f) read with clause (f) of the Explanation to section 54AC of the Income Tax Act, 1961 (3 of 1961), hereby notifies the scheme at subject "Mansarovar Trust for Childhood Blindness" which is being carried out by Manjivasa Lekshayee Mahapatra, Dr. Rajendra Chandra, A/S Nagar, Nagpur, Maharashtra as an eligible project or scheme for a further term of three years commencing with the financial year 2012-13 (2012-13) till 2014-15 (2014-15).

[No. T9 50227 No. 20 39970 5002AT 1009]


(Ajay Kumar Neema)
Director (National Charitable)

SECTION 3, SUB-SECTION (1)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 9th October, 2012


24/4/11 - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number 80/3/11 dated 15th March, 2011, sanction under sub-section (1) with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (23 of 1961), the Central Government has sanctioned under 9, "Education Development Project - A - Various Stages" by Shri. Ujjwal Education Trust, 60, Shantipur Society, Madhwa Road, De. Humayunpur, District Ferozkhan, Punjab 147001, as a eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

and whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly and is further commendable, under section 135 of rule 136 of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (23 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Education Development Project - A - Various Stages" which is being carried out by Shri. Ujjwal Education Trust, 60, Shantipur Society, Madhwa Road, De. Humayunpur, District Ferozkhan, Punjab 147001, without any change in the approved period of Rs. 3.51 crore to a period of Rs. 10.02 crore, as an eligible project or scheme, for a further period of three years commencing with the financial year 2012-13 to 2014-15.

[No. 76/99/2012-13 (Revenue) 2-80 (N.E.T. 10/12)]


(Jyoti Kishor Nema)
Director (Public Accounts)

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,
SECTION 3, SUB-SECTION (2)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 27th October, 2012

S.O. 2454(18) - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) under S.O. 171 (1) dated 12th June, 2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the explanation to section 85AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified, inter alia, under clause 2(a), (1) Training and employment (urban & rural), 2) Rural Education, 3) Horticulture (1) Fishing Unit and 4) Rehabilitation & Mobility aids" by the Association of People with Disability, 6th Cross, Thimma Road, 59th Cannon Chikarajaya, near 5th Cantonment, Bangalore 560 064, as an eligible project or scheme for a period of three years commencing with finance year 2010-11;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being notified that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-section (2) of the I.T.A. of the Finance Act, 1992 (14 of 1992) that the said project or scheme be extended further, period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of section (1) read with clause (a) of the Explanation to section 85AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby modifies the scheme as project (1) Training and employment (urban & rural), 2) Rural Education, 3) Horticulture (1) Fishing Unit and 4) Rehabilitation & Mobility aids" which is being carried out by the Association of People with Disability, 6th Cross, Thimma Road, 59th Cannon Chikarajaya, near 5th Cantonment, Bangalore 560 064, with effect from change in the approved area of Rs. 5.19 acres. The eligible period of scheme shall be for a further period of three years commencing with the financial year 2011-12 (i.e. 2011-12, 2012-13 & 2013-14), but with a direct effect on the financial year 2011-12 (as already approved) and that clause (b) of section 85AC shall be read for the financial year 2011-12.

No. 7450.12 - No. 2012-13 (S.O. 2454(18))

(Vijay Kumar Bhat)
Secretary (National Committee)

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRA ORDINARY, PART-II,
SECTION 3, SUB-SECTION (iii)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 21st October, 2009

3.3 24/26/09 - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number G.O. 757(E) dated 3rd March, 2009, issued under sub-section (3) read with clause (y) of the Explanation to section 85A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government has notified, as serial number 15, "Shree Kiroshramdiji Maharaj Sewa Trust, Degradi" by Swami Shree Nirodhanandji Maharaj Sewa Trust, Dindi Village, Dandi Taluk, Bhilwargar 364 490 Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with the financial year 2008-09 and which was extended further by notification number 35/107 (E) dated 14th May, 2012 for a further period of three years beginning with the financial year 2011-12.

and whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a letter recommendation (number 15) dated 11th of the Income-tax Act, 1962 recommending the project or scheme for a period of 9.75 years including a corpus fund of Rs. 6.25 crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) read with clause (y) of the Explanation to section 85A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project scheme, Kiroshramdiji Maharaj Sewa Trust, Degradi Trust which is being carried on by Swami Shree Nirodhanandji Maharaj Sewa Trust, Dindi Village, Dandi Taluk, Bhilwargar 364 490 Gujarat;

(b) further extends the said notification number G.O. 757(E) dated 3rd March, 2009, to the following effect, namely:

In the said notification, in the Table against serial number 15, in column (b), relating to the amount of sum to be allowed as collection under section 85A of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word "Rs. 2.44 crore" the letters, figures and word "Rs. 6.25 crore" including a corpus fund of Rs. 6.25 crore" shall be substituted.

[No. 75/2013-F.No. 2/2701835-9612-824/Ka-1/0922]


(A) Kaushik Kumar
Secretary, National Committee

उक्त अधिभूतता में पारसी में काल 2015 के तार में दिए कालम (1) में आठवक
 अधिनियम 2004 के धारा 2(5) का यह कि 'अवधि' कालों के रूप में अनुसूचित काल में पारसी
 अधिनियम लागू की गई है संबंधित 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

(20) नं. (20) 2/क.0/सा. की -270/503/20/3 एल.ओ.के.के.के.

मुख्य भूस्वामी
 निदेशकार ई.एस. (सी.)

[NOTICE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART III,
SECTION 3, SUB-SECTION (2)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 6th October, 2012

NOTICE NO. 101/2012, whereby by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) on 30.09.2012 (dated 19th November, 2012), issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Application to Section 35AC of the Income Tax Act, 1961 (15 of 1961), the Central Government has set aside serial number 3, "Recurring cost on organizing sports meet for intellectually disabled children and children for organized healthy athletes programmes for them to participate in special Olympics" by Special Officer Gujarat (Inv. No. 47 & Professor Quarters, Gujarat University, Durgam-Chowk Campus, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009), as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being carried out bona fide for the benefit of the community under clause (b) of sub-section (1) of the Income Tax Act, 1961 for extending the said project or scheme for a period of more years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Application to section 35AC of the Income Tax Act, 1961 (15 of 1961), (c) hereby notifies that the said project "Recurring cost on organizing sports meet for intellectually disabled children and youths and for organized healthy athletes programmes for them to participate in special Olympics" which is being carried out by Special Officer Gujarat (Inv. No. 47 & Professor Quarters, Gujarat University, Durgam-Chowk Campus, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009), without any change in the approved cost of Rs 7.87 crore including capital cost of Rs 1.00 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2012-13 till 2014-15 (2012-13, 2013-14 & 2014-15).

NOTED & APPROVED FOR THE GOVERNMENT OF INDIA


Jyoti Kulkarni
Director, National Committee

ITC IS PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 4th March, 2014

S.O. 2428 (2) Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1369 (2) dated the 29th November, 2003, financial provisions (a) of the Explanation to section 23A of the Income Tax Act, 1961 (19 of 1961), the Central Government had notified as eligible for tax concession and rebate support scheme for Children of poor and socially marginalised class by Nav Jyoti Jagat Kendra, Head Office Village Sakra, PO Sakra, Va. Choupani, District Hazaribag - 825301 (Grant) and as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004, which was extended further with notification number S.O. 2424 (2) dated the 18th February, 2007 for a period of five years beginning with assessment year 2006-2007 and which was extended further with notification number S.O. 2409 (2) dated the 7th October, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10.

And whereas the said project or scheme is such that it would extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-section (3) of rule 114A of the Income Tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (3) of the Explanation to section 23A of the Income Tax Act, 1961 (19 of 1961), hereby notifies the extension of project or scheme for Children of poor and socially marginalised class which is being carried out by Nav Jyoti Jagat Kendra, Head Office Village Sakra, PO Sakra, Va. Choupani, District Hazaribag - 825301 (Grant) as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the Grant of year 2013-14, i.e. 2012-13, 2013-14 & 2014-15.

(No. 59/2013-F.No.13703020-2-50(N.F.2014))


(Ajay Kumar Nema)
Director (Finance, Government)

जोन १ की नियोजन प्रस्ताव लीफ्ट की ३९,००० लाख रुपये की अनुमानित लागत में कई संशोधन विधेय (ये)। त्रैमासिक वर्ष 2012-13 तक प्रारंभ होने वाले वर्ष के आगे तीन वर्षों की अवधि वर्षों 2013-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए एक मात्र प्राथमिकता आवश्यकताओं के रूप में प्रकट कर अंतर्निहित करता है।

(नं० ३५/2012/आ.०१/४०-२७०/503/2012 एन सी (ने.सी.सी.))



सचिव, भारत सेवा
निवेशक संस्था, दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated this 1st October 2012

S.O. 2469 (ii) Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 514 (ii) dated 13th March, 2011, issued under sub-section (ii) read with clause (b) of the explanation to section 85AC of the Income-tax Act, 1961 of 1961, the Central Government had notified at serial number 20, the Department of Health's Eye Care Centre, Institute of Ocular Surface Management, Department of Community Ophthalmology, Doctors' quarters premises of The Arora Blind Men's Association, 22, Zaski Path, Sector-4, G-11, Maham-lira, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Education of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-section (ii) of rule 114A of the Income-tax Act, 1961 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (ii) read with clause (b) of the explanation to section 85AC of the Income-tax Act, 1961 of 1961 hereby notifies the scheme or project "Department of Health's Eye Care Centre, Institute of Ocular Surface Management, Department of Community Ophthalmology, Doctors' quarters premises of which is being run by the Arora Blind Men's Association, 22, Zaski Path, Sector-4, G-11, Maham-lira, with or any change in its approved cost of Rs. 1.15 crore as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2012-13 i.e. 2012-13, 2013-14 & 2014-15.

[No. 21 (2012) E.O. No. 13701 S.3201.2883(N.A.1)(COM)]


(Ajay Kumar Nanda)
Director (National Committee)

(FORM PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 1st October, 2012

S.O. 24109 (F)- Whereas by notification of the Government of India in the Gazette of India (Department of Revenue) number S.O. 68(F) dated the 14th January, 2004 issued under clause (c) of the explanation to section 35A of the Income-tax Act, 1961 (19 of 1961) the Central Government had notified in serial number 8 of the notification of Senior Citizens Fund - Shree Dharamji Anand Modi (Vidhyanagar) and running of the project by Shree Anand Modi, Parle Point, Andheri West, Mumbai - 400007, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O. 362(F) dated the 27th October, 2007 for a period of three years beginning with assessment year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O. 2046(F) dated the 4th August, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-2010.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Development of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 134 of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2010-2011 including a corpus fund of Rs. 242 lakh and Rs. 633 lakh (including a corpus fund of Rs. 242 lakh including a corpus fund of Rs. 633 lakh).

Now, therefore the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35A of the Income-tax Act, 1961 (19 of 1961) (hereby referred to as the "provision") and section 35A of the Income-tax Act, 1961 (19 of 1961) (hereby referred to as the "provision"), hereby notified that the project or scheme "Construction of Senior Citizens Fund - Shree Dharamji Anand Modi (Vidhyanagar) and running of the project" which is being carried out by Shree Anand Modi, Parle Point, Andheri West, Mumbai - 400007, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 and 2014-2015.

(1) Further, the said notification number S.O. 68(F) dated the 14th January, 2004, to the following effect, namely:-

In the said notification in the table against serial number 8, in column (1), relating to maximum amount of expenditure allowed as deduction under section 35A of the Income-tax Act, 1961 for the said project or scheme "Rs. 47 lakh, more including a corpus fund of Rs. 242 lakh" the words "lakh" were replaced by "Rs. 633 lakh including a corpus fund of Rs. 242 lakh" and was "Rs. 633 lakh including a corpus fund of Rs. 242 lakh" to be substituted.

[No. S.O. 24109 (F) No.V.20105/2012-13(XI)A7.0002]


(Ajay Kumar Verma)
Director (National Committee)

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii).

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2012

3.0 2011 (b) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 387 (ii) dated 1st November, 2009, issued under clause (c) (read with clause (i)) of the Provisions in section 35A2 of the Income-tax Act, 1961 (19 of 1961), the Central Government had notified at serial number (i) Keren Public Library; (ii) Sansuk Kundera School, Hoshiarpur Village, Sector 51, Noida; (iii) Sansuk Kundera School, Ghazi Chawkhanda, Sector-68, Noida; (iv) Sansuk Kundera School, Saran Village, Noida; (v) Keren Public Library, Sector-15, Noida-201301, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10;

And whereas the said project or scheme had only to extend up to financial year 2011-12;

And whereas the National Commission for Promotion of Social and Economic Welfare, vide notification dated 20.10.2011, has recommended to extend the said project or scheme for a further period of three years commencing from financial year 2012-13 till the financial year 2014-15 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) (read with clause (i)) of the Provisions in section 35A2 of the Income-tax Act, 1961 (19 of 1961), (a) hereby notifies the scheme as proposed in Part B, Serial No. 10, Sansuk Kundera School, Hoshiarpur Village, Sector 51, Noida; (ii) Sansuk Kundera School, Ghazi Chawkhanda, Sector-68, Noida; (iii) Sansuk Kundera School, Saran Village, Noida; (iv) Keren Public Library, Sector-15, Noida-201301, without any change in the approved cost of Rs. 158 lakh and Rs. 122 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2012-13 till the financial years 2013-14 & 2014-15.

[No. 52/2012/Na.V.20.320903-SO(NF) COMPT]


(Anil Kumar Nanda)
Director, National Commission

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2012


S.O. 2412 (I) - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2007 (I) dated 17th November, 2005, issued under sub-section (1) read with clause (a) of the Explanation to section 13A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified as special number of "Mid Day Meal Project in the state of Rajasthan" by Akshay Food Relief Foundation, Akshay Kalyan Centre, P. O., Mumbai-400 10, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2005-06.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

Now whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-section (5) of rule 114 of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of the Explanation to section 13A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Mid Day Meal Project in the state of Rajasthan" which is being executed by Akshay Food Relief Foundation, Akshay Kalyan Centre, P. O., Mumbai-400 10, without any change in the approved cost of Rs. 1200 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2012-13 to 2014-15, 2014-15 & 2014-15.

[No. 91/2012 P. No. 270150/2012-RO/NAFC/1034]


(Ajay Kumar Verma
Director (National Committee))

(आरत के अन्तर्गत अन्तर्गत 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत)

आरत सरकार

विज्ञापन

विज्ञापन विभाग

अन्तर्गत

नवम्बर 12-13, 2012

1. 2012 (2012) अधिनियम 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत
कानून (अ) के अन्तर्गत आरत सरकार (अ) के अधिनियम 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत
(अन्तर्गत विभाग) के अधिनियम 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत
आरत सरकार के अधिनियम 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत
विज्ञापन विभाग के अधिनियम 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत
विज्ञापन विभाग के अधिनियम 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत

2. अधिनियम 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत

3. अधिनियम 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत
विज्ञापन विभाग के अधिनियम 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत
विज्ञापन विभाग के अधिनियम 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत

4. अधिनियम 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत
विज्ञापन विभाग के अधिनियम 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत
विज्ञापन विभाग के अधिनियम 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत

[2012/2012 अधिनियम 1931 (1901 का 44) के धारा 35 के अन्तर्गत]

अन्तर्गत
विज्ञापन विभाग

**NOTICE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRA ORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)**

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 5th October, 2012

3.0/2417 (2) Whereas the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue, number S.O. 2968 dated the 13th September, 1996, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 354C of the Income-tax Act, 1961 (41 of 1961), the Central Government had specified the serial number 2, 2nd class of apartments, constructed of concrete for sale and conveyance for the care of care of Khandisar, Masad East, Municipal, ENI Charitable Trust, S. V. Road, Dabhi Road, Mumbai - 400097, as an eligible project or scheme for a period of five years beginning with assessment year 1999-2000, which was extended further vide notification number S.O. 1567 dated the 22nd June, 2001 for a period of five years beginning with assessment year 2002-2003, which was extended further vide notification number S.O. 1492 dated the 1st February, 2004 for a period of one year beginning with financial year 2005-2006, which was extended further vide notification number S.O. 1330 dated the 14th June, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O. 2017 dated the 1st October, 2008 for a period of five years beginning with financial year 2009-10;

And whereas the said project or scheme is being executed for three years;

and whereas the National Committee for promotion of Social and Economic Welfare, being established at the said project or scheme is being executed for project and a further extension under sub-section (1) of clause (b) of the Explanation to section 354C of the Income-tax Act, 1961 is being executed for the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 354C of the Income-tax Act, 1961 (41 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Increase of assessment-year number of a project for tax purposes for the care of care of Khandisar, Masad East, Municipal, ENI Charitable Trust, S. V. Road, Dabhi Road, Mumbai - 400097, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2012-13 to 2014-15 (2012-13, 2013-14 & 2014-15).

(No. 352/2012 (N.S. & 375/2012 (N.S. & SOF/VA/COM))


 (Ajay Kumar Sen)
 Director, Finance, Government of India

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (2)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE,
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 1st October, 2012


S.O. 1134/12) Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 297 (dated the 15th February, 2009) issued under clause (a) of sub-section (2) of the Extension to section 354C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, had notified as valid, number 5, Scheme Village Panchayat-81145 (Mishra-shikri) as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O. 852 (I) dated 12th March, 2009 for a period of two years beginning with the financial year 2009-10;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Extension of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under clause (b) of rule 114A of the Income-tax Act, 1961 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Extension to section 354C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby notifies the scheme or project Village Panchayat-81145 (Mishra-shikri) as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2012-13, 2013-14 & 2014-15.

No. S.O. 1134/12 (No. 270 (S.O.) 2012 (S.O.) (NAT. 1000))


(s/o) Kunal Kumar
Director (National Committee)

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II,
SECTION 3 SUB-SECTION (iii)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

Notified on the 4th October, 2012

S.O. 2415 (2), which was by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) dated 5.02.2004 (vide vide the 17th May, 1997, issued under clause (b) of the Explanation to section 55AC of the Income-tax Act, 1961 (30 of 1961) the Central Government had notified a special fund of Rs. 200 crores (two hundred crore rupees) for the purchase and fitting up of Home for special children (to be known as 'Special Children's Parents Association, Plot No. 8, behind Plot No. 12, Institutional Sector 5, Dwarka, New Delhi - 110045) as an eligible project for scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended under vide notification number S.O. 2550 (2) dated the 28th March, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O. 2741 (2) dated the 24th February, 2006 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O. 2621 (2) dated the 21st October, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2005-2006 and which was extended further vide notification number S.O. 3805 (2) dated 14th October, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10,

and whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years,

And whereas the National Committee for Protection of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (2) of rule 116A of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of the Explanation to section 55AC of the Income-tax Act, 1961 (30 of 1961), hereby notifies the extension of project or scheme for special children (to be known as 'Special Children's Parents Association, Plot No. 8, behind Plot No. 12, Institutional Sector 5, Dwarka, New Delhi - 110045) with any change in the approved cost of Rs. 24000 lakh (two crore four hundred lakh rupees) as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2012-13, i.e. 2012-13, 2013-14 & 2014-15.

(No. 8 + 2012/E. No. 20015475/2-50/NAI/COMPT)


Rajiv Kumar Sharma
Director, Income Tax Commission

[NOTICE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB SECTION (iii)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)]

NOTIFICATION

N,
New Delhi, dated the 5th October, 2012

S.O. 2146 (I) - Withdrawal by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number 33/604, dated the 20th May, 2004, issued under clause (y) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (13 of 1961), the Central Government has notified at serial number 10, "Grant of rent and maintenance of the school and hospital" by M.S. Trust (under Ramdhis Service Trust) 2143, East Floor, Khandala, Jogipura - 382001, (Rajasthan), as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with the fiscal year 2003-04, which was extended further vide notification number S.O.454(I) dated on 29th March, 2007 for a period of three years beginning with the fiscal year 2006-07 and which was extended further vide notification number S.O. 126 (I) dated 17th November, 2009 for a period of three years beginning with the fiscal year 2009-10.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond the said years;

And whereas the National Committee for Determination of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, makes a further recommendation under clause (y) of the Explanation of the Income-tax Act, 1961 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (y) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (13 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Grant of rent and maintenance of the school and hospital" which is being carried out by M.S. Trust (under Ramdhis Service Trust) 2143, East Floor, Khandala, Jogipura - 382001, Rajasthan, without any cap on the approximate cost of Rs. 500.00 lakh as a corpus fund of Rs. 500.00 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2012-13, i.e. 20-2-13, 2013-14 & 2014-15.

[No. 23/2012-FIN-3/2701/2012-SO(N.F.0002)]


(Ajay Kumar Meena)
Secretary (National Committee)

THE REPUBLIC OF INDIA IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,
SECTION 3, SUB SECTION (2)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, dated the 9th October, 2002

S.O. 2407 (E)-1 Whereas by notification of the Government of India, the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.854 (E) dated the 29th November, 1994, issued under sub-section (2) of section 3 of the Explanation to section 254C of the Income-tax Act, 1961 (w.e.f. 1961), the Central Government has specified an article number 12, "Running of Arjun Eye Bank set up jointly by Demlag, by Arjun Trust, 2, Padam, 10, East Kailash Marg, New Delhi (E), Budget-100077 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1995-1996, which was extended further by notification number S.O.212 (E) dated the 17th March, 1997 for a period of five years beginning with assessment year 1998-99, which was extended further by notification number S.O.855 (E) dated the 21st September, 2000 for a period of five years beginning with assessment year 2000-2001, which was extended further by notification number S.O.175 (E) dated the 30th October, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003 and which was extended further by notification number S.O.243 (E) dated the 15th February, 2002 for a period of three years beginning with financial year 2002-2003 and which was extended further by notification number S.O. 202 (E) dated the month, 2002 for a period of three years beginning with financial year 2003-04;

And whereas by notification number S.O.855 (E) dated the 21st September, 2000 the estimated cost was enhanced from Rs.4.50 lakh to Rs.15 lakh, vide notification number S.O. 134 (E) dated the 20th October, 2001 the estimated cost was enhanced from Rs.15 lakh to Rs.19.50 lakh and which was further enhanced by notification number S.O.407 (E) dated the 26th March, 2002 from Rs.19.50 lakh to Rs. 27.00 lakh, vide notification number S.O. 202 (E) dated 5th June 2002 the estimated cost was enhanced from Rs. 27.00 lakh to Rs. 31.50 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

and whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, under a further notification under section 3 of rule 123 of the Income-tax Rules, 1961 for extending the said project or scheme for a further period of three years;


Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) and clause (g) of the Explanation to section 254C of the Income-tax Act, 1961 (w.e.f. 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Running of Arjun Eye Bank set up jointly by Demlag, which is being carried out by Arjun Trust, 2, Padam, 10, East Kailash Marg, New Delhi (E), Budget-100077, as being a change in the project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2003-04, i.e. 20.2.15, 20.2.14 & 20.2.13;

(No. 67 (2) (E) No. 2791E-27912 (S) (N) (1002)]


(Ajay Kumar Sharma)
Secretary (National Committee)

श्रीमद् भवन में, जब भारतीय न्यायालय फरवरी 1987 में आयकर अधिनियम, 1987 (1987 का 43) की धारा 25 के तहत री-व्याप्तीकरण के अधीन 1984 के अधीन गठित उपाय 11; और प्रत्येक भवित्तियों का प्रमाण करने हुए 1984 में 25/11/1987, 1987, जहाँ श्री. गौरी प्रसाद, 4/11/1987 का संख्या 43/1987 और पाठ्याचार्य (1); राज्य में अर्थ आर्टिस्ट को संसाधन के परिवर्तन करना इसके 1) के 30.00 लाख रुपये को 30/11/1987 के 1) में कोई परिवर्तन किए बिना मिलता वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने के बाद से 1) के तीन वर्षों में अर्पण के लिए अपने 2012-13, 2013-14 व 2014-15 के लिए एक नव परिवर्तन या स्वतंत्र के रूप में अधिसूचित, करती है।

श्री. गौरी प्रसाद कासमदेन 279/1987 (2012-13) अधिनियम 11


अनिल कुमार शर्मा
निदेशक, राष्ट्रीय न्यायालय

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,
SECTION 3, SUB-SECTION (3)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 29th October 2012

S.O. 3542 (E) - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number 339/2007 (E), dated 13th November, 2007, issued under sub-section (3) read with clause (b) of the Explanation to section 154C of the Income-tax Act, 1961 (15 of 1961), the Central Government has notified serial number 18, "Mahatma Gandhi Hospital-Cardiac Hospital (200 bedded hospital)" by India Education Trust, Mahatma Jantar - Jaipur, India Education Trust, 12-14, BICO Institutions Area, Sitapura, Tonk Road, Jaipur - 302022, Rajasthan, as an eligible project or scheme for a period of one year commencing with the financial year 2009-10.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years.

And whereas the National Committee for Extension of Special Taxonomic Relief, constituted for the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 114 of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of one year;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) read with clause (b) of the Explanation to section 154C of the Income-tax Act, 1961 (15 of 1961), do hereby notify the scheme or project "Mahatma Gandhi Hospital-Cardiac Hospital (200 bedded hospital)" which is being carried out by India Education Trust, Mahatma Jantar - Hospital - India Education Trust, 12-14, BICO Institutions Area, Sitapura, Tonk Road, Jaipur - 302022, Rajasthan, without any change in the approved cost of Rs. 37.00 crores, as an eligible project or scheme for a further period of one year commencing with the financial year 2012-13.

[Sd/- The SECRETARY (INVESTMENT AND FINANCE)]


Rajiv Kumar Nema,
Director (National Committee)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 5th October, 2012

S.O. 2219 (C) - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2145 (F) dated 29th October, 2009, issued under sub-section (1) read with clause (a) of the Explanation to section 80G of the Income Tax Act, 1961 (19 of 1961), the Centre Government had notified at serial number 1, "Expansion of the Chavara Cancer Hospital, Chavara Cancer Rehabilitation Centre and Chavara Cancer Research Institute" by Kuttanose Math Trust for Communication and Development, P.O. - Chavara (p.o.), Kuthalakkud Pathiramanthalam, Kerala State - 695 013, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Scientific Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being carried out for the purpose mentioned in clause (1) of section 80G of the Income Tax Act, 1961 for extending the said project or scheme for a further period of three years and extending the project cost from Rs. 46.17 crore to Rs. 88 crore, i.e., an additional amount of Rs. 41.83 crore;

Now, therefore, the Centre Government, in exercise of the powers conferred by clause (1) read with clause (a) of the Explanation to section 80G of the Income Tax Act, 1961 (19 of 1961) hereby notifies the said project or scheme "Expansion of the Chavara Cancer Hospital, Chavara Cancer Rehabilitation Centre and Chavara Cancer Research Institute" which is being carried out by Kuttanose Math Trust for Communication and Development, P.O. - Chavara (p.o.), Kuthalakkud Pathiramanthalam, Kerala State - 695 013, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2012-13, i.e., 2012-13, 2013-14 & 2014-15.

(g) The amount of the said notification number S.O. 2145 (F) dated 29th October, 2009, to the effect of S.O. 2219 (C).

In the said notification, in the Table against serial number 1, in column (ii), relating to maximum amount of expenses to be allowed as deduction under section 80G of Income Tax Act, 1961 for the years, figures and word "46.17 crore" the letters, figures and word "Rs. 88 crore" shall be substituted.

DR. G. PRADIP NAIK, SECRETARY (SOCIAL & SCIENTIFIC WELFARE)


(Ajay Kumar Singh)
Secretary (National Committee)

PRINTED AND PUBLISHED BY THE GOVERNMENT OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-III,
SECTION 3, SUB-SECTION (6)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 27th October, 2012

S.O. 2125 (E) - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue number S.O. 189 (E) dated 14th November, 2009, in pursuance of sub-section (1) read with clause (b) of the proviso to section 45AC of the Income Tax Act, 1961 (45 of 1961), the Central Government has notified serial number 3, "Kareem livelihood project: the sustainable Development of Kareem Block" by Deepak Foundation, G. C. Kuni Society, Alkapuri, Durgam 500007, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Sustainable Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (2) of rule 14M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the term of project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the proviso to section 45AC of the Income Tax Act, 1961 (45 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Kareem livelihood project: the sustainable Development of Kareem Block" which is being carried out by Deepak Foundation, G. C. Kuni Society, Alkapuri, Durgam 500007, without any change in the approved cost of Rs. 12.18 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2012-13 to 2014-15.

2012 OCT 27 PM 5:57:30 (S.O. 2125 (E) (M.F. COM))


(Rajat Kumar Sen)
Director (National Committee)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-III,
SECTION 3, SUB-SECTION (II)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, India, the 9th October, 2012

50, 24927-12) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1130(E) dated the 1st September, 2006, issued under clause (a) of the Explanation to section 280C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified as valid under clause (ii) of the said section the Rehabilitation and Development Company, U.P. (hereinafter referred to as the "Company") by Budgetary Rehabilitation Charge (hereinafter referred to as "Budgetary Rehabilitation Charge") of Rs. 21020/- as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2006-2007 and which was notified under vide notification number S.O. 2011-12 dated the 1st August, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10;

And whereas the said project or scheme is like to extend beyond three years;

And whereas the National Council for Promotion of Social and Economic Welfare has notified the said project or scheme as being essential properly, made a letter communication under sub-rule (3) of rule 123A of the Income-tax Rules, 1961 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 280C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), do hereby notify the scheme or project of the Rehabilitation and Development Company, U.P. (hereinafter referred to as the "Company") which is being carried out by Budgetary Rehabilitation Charge (hereinafter referred to as "Budgetary Rehabilitation Charge") of Rs. 21020/-, without any change in the approved cost of Rs. 3000 crore including a corpus fund of Rs. 600 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2012-13 & 2013-14 & 2014-15.

[No. 23-0012012-NAY-0701037012-SO(NAT/COM)]


(Ajay Kumar Nain)
Officer (National Council)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (2)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)]

NOTIFICATION

New Delhi, date: the 5th October, 2012.

S.O. 24524 (E). Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.6987 dated the 3rd October, 2007, issued under sub-section (1) and with clause (b) of the Explanation to section 35AD of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified, as serial number 1, "Construction of land and construction of 100,000 acres, "Amrita Kaseram" all over India" by Mata Amritanandamayi Charitable Trust, Amritapur P.O., Kollam District, Kerala 568775 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-99, which was extended further vide notification number S.O.5740(E) dated the 21st September, 2009 for a period of three years beginning with assessment year 2001-02, which was extended further vide notification number S.O.1267(E) dated the 30th October, 2007 for a period of three years beginning with assessment year 2004-05, which was extended further vide notification number S.O.5737(E) dated the 29th March, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2005-06, which was extended further vide notification number S.O. 2073(E) dated the 1st August, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10;

And whereas by the Order No. S.O.1259(E) dated the 30th October, 2009 the said scheme was further modified to Rs.100,00,00,000/- (Ten Crores) of which Rs.40,00,00,000/- was sanctioned vide notification number S.O.4679(E) dated the 29th March, 2007 from Rs. 7400.00 lakhs to Rs.10000.00 lakhs;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And whereas the Ministry of Finance for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed, or will be executed, in accordance with sub-rule (3) of rule 114 of the Income-tax Act, 1961, is willing to extend the scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AD of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Development of land and construction of 1,00,000 acres, "Amrita Kaseram" all over India" which is being carried out by Mata Amritanandamayi Charitable Trust, Amritapur P.O., Kollam District, Kerala 568775, with the following details: the approved cost of Rs. 10000.00 lakhs as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2012-13 i.e. 2012-13 & 2013-14 & 2014-15.

[No. 10/2012-F.No.9/2011-S&P(12-50)NACT.COMI]


Ajay Kumar Nema
Director (Charitable)

